

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 मई 2025 — वैशाख 16, शक 1947

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 मई 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 19-02/2012/54.— राज्य शासन एतद्वारा हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम, 2002 के नियम 4 सहपठित नियम 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का निम्नानुसार गठन करता है :-

स.क्र.	हज समिति की धारा	मनोनित सदस्य
1.	नियम की धारा 5 की उपधारा (2) 1 तीन (3) सदस्य (मुस्लिम सदस्यों में से) :- (क) राज्य के लोक सभा या राज्य सभा का सदस्य (ख) राज्य विधान सभा का सदस्य (ग) राज्य विधान परिषद का सदस्य	—
2.	नियम की धारा-5 की उपधारा (2) 2 तीन (3)(मुस्लिम सदस्यों में से) :- राज्य के स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका)	—
3.	नियम की धारा-5 की उपधारा (2) 3 तीन (3) (सदस्य मुस्लिम समुदाय से) :- जो मुस्लिम धर्मज्ञान व मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ हों, इन सदस्यों में से एक शिया मुस्लिम समुदाय से आवश्यक है।	(1) मौलाना अमीर बेग, ग्राम-बावनकेरा, पिथौरा, जिला-महासमुन्द । (2) मौलाना हसन अब्बास, मोमीनपारा, रायपुर (3) मौलाना महताब महावीरगंज वि.खं.रामचन्द्रपुर जिला-बलरामपुर रा.गंज
4.	नियम की धारा-5 की उपधारा (2) 4 पांच (5) (मुस्लिम सदस्य) :- ऐसे मुस्लिम स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधियों से जो सार्वजनिक प्रशासकीय, वित्तीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हों।	(1) मिर्जा एजाजबेग, आर.डी.ए. प्लॉट संजय नगर, रायपुर । (2) गुलाम रहमान खान, मधुबन पारा, रायगढ़। (3) सैय्यद मकबूल अली पिता-स्व० हाजी सैय्यद मकसूद अली, सुन्नी हुसैनी मस्जिद के पीछे तयबा चौक, तालापारा बिलासपुर

5.	एक (1) अध्यक्ष, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड	पदेन सदस्य
6.	एक (1) कार्यपालन अधिकारी/सचिव, राज्य हज कमेटी	पदेन सदस्य

2. समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 3 वर्ष होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव.